



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2019/माघ 10, 1940

No. 414]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2019/MAGHA 10, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

का.आ. 527(अ).—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 9 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 7 और न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 1174(अ), तारीख 22 मार्च, 2016 के अधिक्रमण में एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

1. स्वतंत्र सदस्य

- | | | |
|-----|--|---------|
| (1) | श्रम और रोजगार मंत्री, | अध्यक्ष |
| (2) | सचिव, (श्रम और रोजगार मंत्रालय),
श्रम और रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली | सदस्य |
| (3) | ब्रिगेडियर, डी.सी. पंत(सेवानि.),
223, ग्रीन टावर्स, सेक्टर 23, प्लॉट 7सी, द्वारका,
नई दिल्ली | सदस्य |
| (4) | श्री रंजन सक्सेना, एडवोकेट,
61, विक्रमादित्य पुरी, एस.बी.आई. आफिसर्स कालोनी, बरेली-243002 | सदस्य |
| (5) | श्री सी.एस. भारद्वाज, एडवोकेट,
एफ-1 2 3, बेटा-2, ग्रेटर नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201308 | सदस्य |

- (6) श्री भास्कर कुमार सिंह, हाउस नं. 86,
लेन 02, वैशाली, पालम, डाबरी रोड, नई दिल्ली-110045 सदस्य
- (7) श्री चंदन कुमार, राष्ट्रीय हमाल पंचायत,
89, न्यू टिम्बर मार्केट, भवानीपेठ, पुणे, महाराष्ट्र-411042 सदस्य
- (8) श्रीमती अर्चना सिंघल,
बी-4/110, मयूर अपार्टमेंट्स, सेक्टर 9,
रोहिणी, नई दिल्ली' 110085 सदस्य
- (9) श्री दीपेंद्र मोहन, सी.ए.,
2/30, स्वदेशी बीमा नगर, एम.जी. रोड,
आगरा-282002 सदस्य
- (10) श्री आनंद साहू,
739/4, स्ट्रीट नं. 2, कृष्णा पुरी, मंडावली,
दिल्ली-110092 सदस्य
2. **नियोक्ता प्रतिनिधि**
- (क) लोक उपक्रमों का स्थायी सम्मेलन(स्कोप)
- (1) डा. यू.डी.चौबे,
महानिदेशक, स्कोप, "स्कोप परिसर", कोर-8, प्रथम तल, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 सदस्य
- (2) श्री एस.ए. खान,
महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं कारपोरेट मामले), स्कोप, "स्कोप परिसर", कोर-8, प्रथम तल, 7,
लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 सदस्य
- (ख) भारतीय नियोक्ता फेडरेशन(ईएफआई)
- (3) श्री विवेक एस. पटवर्धन, 122, 'ज्येष्ठ' तारांगण 2सीएचएस, कोरम मॉल के पीछे, ईस्टर्न एक्सप्रेस
हाइवे, थाणे, महाराष्ट्र-400606 सदस्य
- (ग) अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन (एआईओई)
- (4) श्री के. मनिककम, महासचिव,
दक्षिण भारतीय नियोक्ता मंडल,
2-डी, एल्डोरेडो भवन (द्वितीय तल), 112, नंगमबक्कम राजमार्ग, चैन्नई-600034 सदस्य
- (घ) अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन (एआईएमओ),
- (5) श्री के.ई. रघुनाथन, राष्ट्रीय अध्यक्ष,
अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन, जीवन सहकार, चतुर्थ तल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुम्बई -
400001 सदस्य
- (ड.) भारत के लघु उद्योगों के संगमों का फेडरेशन,
(एफ.ए.एस.आई.आई.)
- (6) श्री शैलेश्वर पांडा, राष्ट्रीय अवैतनिक कोषाध्यक्ष,
खासमोहाल बलीचक, पोली उन्नयन समिति,
ग्राम + पोस्ट-राधा नगर, हावड़ा, पश्चिमी बंगाल-711310 सदस्य
- (च) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
- (7) श्री एम.एस. उन्नीकृष्णन,
अध्यक्ष, उद्योग संबंधों पर सी.आई.आई. राष्ट्रीय समिति, एम.डी.एवं सी.ई.ओ. थर्मैक्स लिमिटेड,
भारतीय उद्योग परिसंघ, 249 एफ, सेक्टर 18, उद्योग विहार, फेस-4, गुरुग्राम, हरियाणा,
122015 सदस्य

(छ)	लघु उद्योग भारती (एलयूबी)	
(8)	श्री रमाकांत भारद्वाज, 214 औद्योगिक क्षेत्र, फेस-1, पंचकुला, हरियाणा	सदस्य
(ज)	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री(फिक्की)	
(9)	श्री उल्लास मेनन, महासचिव, दी युनाइटेड प्लांटर्स, दक्षिण भारतीय संगम, पोस्ट बॉक्स नं. 11 "ग्लेन व्यू" नीलगिरी, कुन्नूर-643101	सदस्य
(झ)	दी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)	
(10)	श्री पी.के. जैन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दी माल्ट कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 1101 वेल्डन टेक पार्क, 11वां तल, सेक्टर 48, सोहना रोड, गुरुग्राम-122001	सदस्य
3.	कर्मचारी प्रतिनिधि	
(क)	भारतीय मजदूर संघ, (बीएमएस)	
1.	श्री डी.वी. राममूर्ति, 18/8, 6वां क्रास, 6वां मेन, एमएसआर, नागरा, बंगलोर कर्नाटक, 560054	सदस्य
2.	श्री गणेश मिश्रा, शेंगड़ी भवन, भारत माता चौराहा (डिपो चौराहा) भदभदा रोड, भोपाल मध्य प्रदेश-462003	सदस्य
3.	श्रीमती शिल्पा देशपांडे, बंगला नं0-5, पूनम विहार-2 स्वालंबी नगर, नागपुर महाराष्ट्र	सदस्य
(ख.)	इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इनटक)	
4.	रिक्त	सदस्य
5.	रिक्त	सदस्य
(ग)	ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी)	
6.	श्री विदया सागर गिरि, सैक्टर-12ए क्वार्टर नं0 1517, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो झारखंड-827012	सदस्य
(घ)	हिंद मजदूर सभा (एसएमएस)	
7.	श्री जोगेन्द्र नाथ त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, हिंद मजदूर सभा, गुड़ियानाली, डाकघर और जिला डेनकनाल, ओडिशा-769 001	सदस्य

(ड) सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीआईटीयू)

8. श्री कश्मीर सिंह ठाकुर, सदस्य
राष्ट्रीय सचिव, सीआईटीयू
उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य समिति सीआईटीयू, कक्ष सं0 9, बावा होटल, शिमला-171003

(च) ऑल इंडिया यूनाईटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी)

9. श्री अर्चित्य सिन्हा, सदस्य
ऑल इंडिया सेक्रेट्रिएट,
ऑल इंडिया यूनाईटेड ट्रेड यूनियन सेंटर,
77/2/1, लेनिन सरणी,
कोलकाता-700 013 सदस्य

(छ) नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (डीएचएन)

10. डा0 दीपक जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सदस्य
नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (डीएचएन)
श्रमिक सदन, अपोलो फार्मसी के सामने,
मेन रोड, विद्या नगर, बिलासपुर,
छत्तीसगढ़-495 004

4. श्री राजन वर्मा, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

[फा. सं. एस-32022/1/2018-डब्ल्यूसी]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

S.O. 527(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), read with section 9 of the said Act, and rule 4 of the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment published, vide number S.O. 1174 (E), dated the 22nd March, 2016, the Central Government hereby appoints an Advisory Board consisting of the following Members, namely:—

1. INDEPENDENT MEMBERS

- | | | |
|-----|--|----------|
| (1) | Labour and Employment Minister. | Chairman |
| (2) | Secretary (Labour and Employment),
Ministry of Labour and Employment,
Government of India,
New Delhi. | Member |
| (3) | Brig. D. C. Pant (Retd.),
223, Green Towers, Sector 23, Plot-7C,
Dwarka, New Delhi. | Member |
| (4) | Shri Rajan Saxena, Advocate,
61, Vikramadityapuri, SBI Officers Colony,
Bareilly – 243 002. | Member |
| (5) | Shri C. S. Bhardwaj, Advocate,
F-1 2 3, Beta – 2, Greater Noida , | Member |

- Gautam Buddh Nagar,
Uttar Pradesh – 201 308.
- (6) Shri Bhaskar Kumar Singh, Member
H. No. 86, Lane – 02, Vaishali Palam,
Dabri Road, New Delhi – 110 045.
- (7) Shri Chandan Kumar, Member
Rashtriya Hamal Panchayat ,
89, New Timber Market , Bhawanipeth,
Pune, Maharashtra – 411042.
- (8) Smt. Archana Singhal, Member
B-4/110, Mayur Apartments, Sector- 9,
Rohini, New Delhi- 110 085.
- (9) Shri Deependra Mohan, CA, Member
2/30, Swadeshi Bima Nagar,
M G Road, Agra – 282 002.
- (10) Shri Anand Shahu, Member
739/4, Street No.2,
Krishnapuri, Mandawali,
Delhi-110092.

2. EMPLOYERS' REPRESENTATIVES

- (a) Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE)
- (1) Dr. U.D. Chobey, Member
Director General, SCOPE,
“SCOPE Complex”, Core-8, 1st Floor,
7, Lodhi Road,
New Delhi-110 003.
- (2) Shri S. A. Khan, Member
General Manager (HR & Corp. Affairs), SCOPE,
“SCOPE Complex”, Core-8, 1st Floor,
7, Lodhi Road,
New Delhi-110 003.
- (b) Employers' Federation of India (EFI)
- (3) Shri Vivek S. Patwardhan, Member
122, 'Jyeshtha', tarangan II CHS,
Behind Korum Mall, Off EE Highway,
Thane, Maharashtra – 400 606.
- (c) All India Organisation of Employers (AIOE)
- (4) Shri K. Manickam, Member
Secretary General,
The Employers Federation of Southern India,
2-D, Eldorado Building (2nd Floor),
112, Nungambakkam High Road,
Chennai – 600 034.
- (d) All India Manufacturers' Organisation (AIMO)
- (5) Shri K.E.Raghunathan, Member
National President,
All India Manufacturers' Organisation,
Jeevan Sahakar, 4th Floor, Sir P.M. Road, Fort,
Mumbai – 400 001.

- (e) Federation of Associations of Small Industries of India (FASII)
- (6) Shri Saileswar Panda, Member
National Hony. Treasurer,
Khasmohal Balichak, Polley unnayan Samity,
Vill+Post., Radha Nagar,
Howrah, West Bengal- 711310.
- (f) Confederation of Indian Industry (CII)
- (7) Shri M. S. Unnikrishnan, Member
Chairman, CII National Committee on Industrial Relations,
MD & CEO, Thermax Ltd.,
Confederation of Indian Industry, 249-F,
Sector 18, Udyog Vihar, Phase IV,
Gurugram, Harayana– 122015.
- (g) Laghu Udyog Bharati (LUB)
- (8) Shri Ramakant Bharadwaj Member
214, Industrial Area, Phase – I,
Panchkula, Harayana.
- (h) Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)
- (9) Shri Ullas Menon, Member
Secretary General,
The United planters' Association of Southern India,
Post Box No. 11, "Glenview", The Nilgiris,
Coonoor – 643 101.
- (i) The Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM)
- (10) Shri P.K. Jain , Member
Chairman & Managing Director, The Malt Company (India) Pvt. Ltd.,
1101, Welldone Tech park, 11th Floor, Sector- 48,
Sohna Road, Gurgaon – 122001.

3. EMPLOYEES' REPRESENTATIVES

- (a) Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS)
1. Shri D.V. Ramamurthi, Member
18/8,6th cross, 6th main, M.S.R. Nagara,
Bangalore, Karnataka -560054.
2. Shri Ganesh Mishra, Member
Thengdi Bhawan,
Bharat Mata Chouraha (Dipo Chouraha),
Bhadbhada Road, Bhopal
Madhya Pradesh -462003.
3. Smt. Silpa Deshpande, Member
Bangla No.- 5, Punam Vihar – 2,
Swalambi nagar, Nagpur,
Maharashtra.
- (b) Indian National Trade Union Congress (INTUC)
4. Vacant Member
5. Vacant Member
- (c) All India Trade Union Congress (AITUC)
6. Shri Vidya Sagar Giri, Member
Sector 12-A, Qtr. No.1517,

- Bokaro Steel City,
Bokaro, Jharkhand – 827012.
- (d) Hind Mazdoor Sabha (HMS)
7. Shri Jogendranath Tripathy, Member
Vice President,
Hind Mazdoor Sabha,
At. Gudianali,
P.O. and District Dhenkanal ,
Odisha– 769 001.
- (e) Centre of Indian Trade Union (CITU)
8. Shri Kashmir Singh Thakur, Member
National Secretary, CITU,
Vice President, Himachal Pradesh State Committee of CITU,
Room No.9, Bawa Hotel,
Shimla – 171 003.
- (f) All India United Trade Union Centre (AIUTUC)
9. Shri Achintya Sinha, Member
Member, All India Secretariat,
All India United Trade Union Centre,
77/2/1, Lenin Sarani,
Kolkata – 700 013.
- (g) National Front of Indian Trade Unions(DHN)
10. Dr. Deepak Jaisawal, National President, Member
National Front of Indian Trade Unions(DHN),
Shramik Sadan, In front of Appollo Pharmacy Main Road,
Vidya Nagar, Bilaspur,
Chhattisgarh – 495004.
4. Shri Rajan Verma, Chief Labour Commissioner (Central), Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi–110001, shall act as the Member Secretary to the Board.

[F. No. S - 32022/1/2018 - WC]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.